

आज दिनांक 03.12.2022 को थाना वजीरगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 443/2022 धारा 363 आईपीसी मे गुमशुदा बच्चो की सकुशल बरामद कर परिजनो के सुपुर्द किये जाने के सम्बन्ध मे

घटना का विवरण..... दिनांक 01.12.2022 को सायं 03.00 बजे वार्ड न0 06 मो0 बनिया कस्बा वजीरगंज से दो लडके जिनके नाम क्रमशः 1.अजय कुमार उर्फ मनु पुत्र सोनू सिंह उम्र 12 वर्ष 2.रोहित उर्फ काले पुत्र प्रेमपाल उम्र करीब 14 वर्ष जो घर से बिना बताये कही चले गये । जिनका कोई पता नही चल सका था । परिजनो द्वारा पुलिस के सहयोग से काफी तलाश किया गया किन्तु नही मिलने पर दिनांक 02.12.2022 को वादी सोनू सिंह पुत्र छविनाथ सिंह निवासी वार्ड न0 06 मो0 बनिया कस्बा व थाना वजीरगंज जिला बदायूँ की लिखित तहरीर के आधार पर थाना वजीरगंज पर मु0अ0सं0 443/2022 धारा 363 आईपीसी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । गुमशुदा दोनो बच्चो की तलाश हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बदायूँ द्वारा प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज के नेतृत्व मे टीम गठित कर दिल्ली रवाना किया गया । जिसके सम्बन्ध मे रात्रि मे ही प्रभारी निरीक्षक धनंजय कुमार पाण्डेय मय हमराह कर्म0गणो द्वारा उक्त दोनो बच्चो की सुरागरशी पतारशी करते हुए अथक प्रयास करके दिल्ली के शालीमार गार्डन इलाके से एक होटल मे मजदूर का कार्य करते हुए सकुशल बरामद किया गया । पूछताछ पर जानकारी हुई है कि दोनो बच्चे घर से अमीर बनने के चक्कर मे निकल गए थे । और कई यातायात के साधन बदलते हुए मुरादाबाद पहुँचकर वहाँ से ट्रेन के माध्यम से दिल्ली पहुँचे थे कि दिल्ली मे स्टेशन पर उतरने के बाद इनको मजदूरी कराने वाले ठेकेदार ने अपने साथ ले लिया । वहाँ जाकर शादी विवाह के सीजन मे रेस्टोरेन्ट मे बर्तनो के साफ सफाई के काम मे दैनिक मजदूरी पर कार्य पर लगा दिया । दिल्ली होटल से गुमशुदा दोनो बच्चो उपरोक्त को सकुशल बरामद कर रात्रि मे ही लाया गया । दोनो बच्चो को सकुशल उनके परिजनो के सुपुर्द किया गया । थाना पुलिस की जनता द्वारा भूरि - भूरि प्रशंसा की जा रही है ।

बरामद करने वाली टीम

- 1.श्री धनंजय कुमार पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज
- 2.उ0नि0 श्री रामेन्द्र सिंह थाना वजीरगंज
- 3.हे0का0 347 राजेन्द्र सिंह थाना वजीरगंज
- 4.का0 1368 अंकित कुमार थाना वजीरगंज
- 5.का0 1590 नितिन कुमार थाना वजीरगंज

6.का0 1294 लविन कुमार थाना वजीरगंज

7.का0 392 अनिल कुमार थाना वजीरगंज

सोशल मीडिया सेल

जनपद बदायूँ ।